

छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश

प्रिय नागरिकगण एवं मतदाता,

छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, मैं देश के सभी नागरिकों एवं मतदाताओं को बधाई देता हूँ। विशेष रूप से मैं उन नए-पंजीकृत निर्वाचकों को बधाई देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ, जो अभी-अभी मतदाताओं के रूप में, पंजीकृत हुए हैं। आने वाले सभी निर्वाचनों में, नए-पंजीकृत मतदाताओं को मत देने के, अपने अधिकार का पहली बार प्रयोग करने का मौका मिलेगा।

दोस्तों, यह हम सभी के लिए अत्यन्त गौरव का दिन है, क्योंकि, यह वही दिन है जब सन् 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तब से, आयोग ने भारत के लोगों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय निर्वाचन कराने के दायित्व के प्रति अपने आपको समर्पित कर दिया है।

मैं पिछले लोक सभा निर्वाचनों में, और उसके बाद आयोजित हुए राज्य के चुनावों में, बढ़-चढ़ कर भाग लेने के लिए, सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा प्रयास है कि, चुनावों को अधिक से अधिक मतदाता-केन्द्रित, मतदाता-हितैषी, सहभागी, सबको शामिल करते हुए, पारदर्शी एवं उल्लासपूर्ण बनाया जाए।

इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम, 'सबको शामिल करते हुए गुणवत्तापूर्ण सहभागिता' है जिसमें सभी पात्र नागरिकों को मतदाताओं के रूप में पंजीकृत करने और उन्हें अत्यधिक जानकारी पूर्ण और नैतिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। हमारा नारा है- "कोई मतदाता न छूटे"

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, मैं देश के सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ वे पंजीयन करवा कर और आगामी चुनावों में भागीदारी बढ़ा कर लोकतंत्र को और मजबूत करें।

आइए हम सभी इस बात का प्रण लें और मतदाता के रूप में अपने आपमें भरोसे को और मजबूत करें एवं देश और लोकतंत्र को मजबूत करें।

मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2016 के अवसर पर, इस देश के सभी नागरिक को एक बार फिर अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

धन्यवाद

जय हिन्द !!!